

## प्रेस नोट दिनांक 27/05/2021

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये तारकोल के 22 ड्रम, एक पिकअप गाड़ी नं0 UK07CB-2144, एक छोटा हाथी नं0 UP11AT-9508 बरामद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 24,25/05/21 की रात्रि में मु0नगर-सहारनपुर हाईवे पर होटमिक्स प्लान्ट से 42 ड्रम चोरी कर लिए गए थे, जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 310/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसके अनावरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा प्रभारी निरीक्षक देवबन्द के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। आज दिनांक 27/05/21 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक देवबन्द के कुशल नेतृत्व में चौकी प्रभारी तल्हेड़ी उ0नि0 सुनील कुमार मय हमराहीयान के ग्राम ध्याना से पहले तिराहे से समय करीब 11.30 बजे 03 अभियुक्तगणों को मय चोरी किये तारकोल के 22 ड्रम, एक पिकअप गाड़ी नं0 UK07CB-2144, एक छोटा हाथी नं0 UP11AT-9508 के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- (1) तैय्यब पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम घाटहेड़ा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
- (2) रहीश पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम घाटहेड़ा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
- (3) राहुल पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम मडंकी थाना नांगल जनपद सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण-

- (1) 22 ड्रम तारकोल
- (2) एक पिकअप गाड़ी नं0 UK07CB-2144
- (3) एक छोटा हाथी नं0 UP11AT-9508

### पुलिस पार्टी का विवरण-

- (1) श्री अशोक सोलंकी प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- (2) उ0नि0 सुनील कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- (3) है0कां0 373 नरेन्द्र थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- (4) है0कां0 379 कुंवरपाल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- (5) कां0 63 कपिल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- (6) कां0 2122 लोकेश थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

प्रेस विज्ञापित दिनांक 27-05-2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्रों में बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश पूर्व में दिये गये हैं। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण एवं समस्त क्षेत्राधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने नगर/ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाते हुये बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों के चालान किये गये तथा भारी मात्रा में सम्मन शुल्क वसूल किया गया। जनपद पुलिस द्वारा की गई कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:-

नगर क्षेत्र/देहात क्षेत्र में की गई कार्यवाही का विवरण:-

➤ बिना मास्क के चालान:-163

➤ वसूला गया सम्मन शुल्क:-42650 /-रुपये

**नोट-** जनपदवासियों से अपील की जाती है कि जब भी घर से निकलें मास्क का प्रयोग अवश्य करें अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।



## प्रेस नोट दिनांक 27.05.2021

### थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटों के अंदर किया लूट का खुलासा, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ट्रैक्टर महेन्द्रा अर्जुन 555 DI, 189500 /- रुपये नगद व 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस बरामद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 25-05-2021 को वादी श्री सचिन पुत्र स्व0 राजेन्द्र निवासी मौहल्ला मण्डी चौक कस्बा व थाना गढमुक्तेश्वर जिला हापुड द्वारा थाने पर लिखित सूचना दी गयी कि बदमाशों द्वारा उसका ट्रैक्टर महेन्द्रा अर्जुन 555 DI रंग लाल लूट लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0स0 156/21 धारा 147/148/395/420/406 भादवि बनाम अभि0गण 1. मोहसिन पुत्र यासीन नि0ग्राम बिस्लहेडा थाना नकुड जिला सहारनपुर 2. मुबारिक पुत्र कोसर नि0 हाजीपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर 3. जमशेद पुत्र रियासत नि0ग्राम मैनपुरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर व 03 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए टीम गठित कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं लूटे गये ट्रैक्टर की बरामदगी हेतु थाना नानौता पुलिस को निर्देशित किया गया।

जिसके क्रम में दिनांक 26.05.2021 को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह, सहारनपुर के कुशल निर्देशन में त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घण्टे के अन्दर ही थाना नानौता पुलिस द्वारा तीतरो मोड के पास से उक्त घटना में शामिल अभि0गण 1. मोहसिन पुत्र यासीन नि0ग्राम बिस्लहेडा थाना नकुड जिला सहारनपुर व 2. मुबारिक पुत्र कोसर नि0 हाजीपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर को समय करीब 21.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में लूटा गया ट्रैक्टर महेन्द्रा अर्जुन 555 DI रंग लाल, 189500 /- रुपये व 01 अदद तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस बरामद किये गये।

#### गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता :-

- 1-मोहसिन पुत्र यासीन नि0ग्राम बिस्लहेडा थाना नकुड जिला सहारनपुर।
- 2-मुबारिक पुत्र कोसर नि0 हाजीपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

#### बरामदगी का विवरण :-

1. ट्रैक्टर महेन्द्रा अर्जुन 555 DI रंग लाल।
2. 189500 /- रुपये नगद बरामद।
3. एक अदद तमंचा .315 बोर मय 02 अदद कारतूस जिंदा .315 बोर।

#### पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण मोहसिन व मुबारिक द्वारा बताया गया कि यह ट्रैक्टर हमने जमशेद के नाम फाइनेंस पर खरीदा था लेकिन हम फाइनेंस की किश्त नहीं भर पा रहे थे तब हमने सोचा कि इस ट्रैक्टर को बेचकर लूट कर फाइनेंस वालों के सुपुर्द कर देगे। इससे हमें पैसे भी मिल जायेंगे और ट्रैक्टर भी कम्पनी पर चला जायेगा। दिनांक 25.05.2021 को यह ट्रैक्टर हमने श्री सचिन पुत्र स्व0 राजेन्द्र निवासी मौहल्ला मण्डी चौक कस्बा व थाना गढ मुक्तेश्वर जिला हापुड को 4 लाख 15 हजार रुपये में बेच दिया था तथा सचिन से 3,95,000 रुपये हमारे पास आ गये हमारे पास से जब सचिन ट्रैक्टर लेकर घर जाने के लिए निकला तो हम दोनों तथा हमारे साथी जमशेद पुत्र रियासत नि0ग्राम मैनपुरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर तथा लखवेन्द्र उर्फ राजू पुत्र अजब सिंह नि0ग्राम शेरपुर ढायकी थाना नकुड जिला सहारनपुर व इसके अन्य 02 साथी जिनके नाम पते लखवेन्द्र जानता है के साथ मिलकर हमने ग्राम टिकरौल में ईट भट्टे के पास से लूट लिया था। आज हम दोनों इस ट्रैक्टर को लेकर फाइनेंस वालों को देने जा रहे थे जिनकी मिली भगत से इस धन्धे को हम करते हैं। जिसकी एवज में हमें फाइनेंस वाले कुछ पैसे भी देते हैं कि पुलिस द्वारा पकड़े गये गिरफ्तार अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ जारी है।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम :-

- 1-थानाध्यक्ष श्री सोबीर नागर थाना नानौता, सहारनपुर।
- 2-उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार थाना नानौता, सहारनपुर।
- 3-उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना नानौता, सहारनपुर।
- 4-उ0नि0 श्री कुँवरपाल सिंह थाना नानौता, सहारनपुर।
- 5-है0का0 82 संजीव कुमार थाना नानौता, सहारनपुर।
- 6-है0का0 592 विजय कुमार थाना नानौता, सहारनपुर।
- 7-का0चालक 560 सतेन्द्र कुमार थाना नानौता, सहारनपुर।
- 8-हो0गार्ड 2077 सतीश कुमार थाना नानौता, सहारनपुर।

## प्रेस नोट दिनांक 27.05.2021

थाना गंगोह पुलिस द्वारा अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार:—

दिनांक 26.05.2021 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा जंगल ग्राम दैदनोर से 02 अभियुक्त 1. राजपाल पुत्र गनीराम निवासी दैदनोर थाना गंगोह, सहारनपुर 2. जितेन्द्र पुत्र पवन निवासी दैदनोर थाना गंगोह, सहारनपुर को 40 लीटर अवैध कच्ची शराब मय शराब बनाने के उपकरण व 140 लीटर लहन सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 234/2021 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध शराब व नाजायज चाकू 01 अभियुक्त गिरफ्तार:—

दिनांक 26.05.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मोहल्ला राधा बिहार से अभियुक्त सागर पुत्र रामकिशन निवासी मोहल्ला गढी मलूक नं0-01 थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 86/2021 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व मु0अ0सं0 87/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीडिया/सोशल मीडिया सेल  
सहारनपुर।